



लाखों की नकली विदेशी शराब जब्त, आरोपितों को भेजा गया जेल

Publish Date: Mon, 11 Nov 2019 06:39 AM (IST)

-बिहार में सप्लाई के लिए तैयार किया गया था शराब -अनानास व सब्जी में करते हैं तस्करी बिहार ब

-बिहार में सप्लाई के लिए तैयार किया गया था शराब

-अनानास व सब्जी में करते हैं तस्करी, बिहार बंगाल सीमा का उठाते हैं लाभ

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : भारत बांग्लादेश व बिहार सीमांत फांसीदेवा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की देर रात नकली विदेशी शराब बनाकर तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वहां से पुलिस ने तैयार तीन हजार 300 पेटी विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब जब्त किए हैं। यहां से इसे तैयार करने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गये आरोपितों में बिहार के रहने वाले विकास बसाक, अमर सिंह बसाक, सनी कुमार सिंह, सिन्धू सिन्हा और सचिन बसाक शामिल हैं। बरामद शराब की कीमत लगभग पांच लाख रुपये आंके गये हैं। दार्जिलिंग ग्रामीण के डीएसपी अचिंत गुप्त ने बताया कि जिस घर में यह धंधा चल रहा था वह मंगल हांसदा का घर है। मकान मालिक घटना के बाद से ही फरार है। इसके पहले भी घोषपुर आउटपोस्ट की पुलिस ने इसी प्रकार बिहार के एक शराब तस्कर गैंग को गिरफ्तार किया था जो बिहार का रहने वाला था।

सभी आरोपितों को रविवार को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उसे जमानत नहीं देते हुए 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। पुलिस को छापामारी के दौरान स्टिकर व लेवल भी मिला है। प्राथमिक जांच में पुलिस को पता चला है कि बिहार में शराब बंदी के बाद बिहार के पूर्णिया, बाइसी और कटिहार क्षेत्र से शराब तस्कर बंगाल बिहार सीमांत फांसीदेवा खोरीबाड़ी क्षेत्र में आकर अवैध तरीके से नकली शराब निर्माण करते हैं। इसके बाद उसे सब्जी या अनानास के गाड़ी के माध्यम से बिहार भेज देते हैं। इस बड़े पैमाने के तस्करी में सीमा पर लगाए गये मद्य निरोधक पुलिस जांच शिविरों से इनकी मिली भगत होती है। बिहार में शराब बंदी के बाद अब होम डिलेवरी के रूप में शराब तस्कर लोगों को घर तक ऊंची कीमत पर शराब मुहैया कराते हैं। बंगाल पुलिस इस संबंध में बिहार पुलिस से संपर्क स्थापित कर इस पूरे गिरोह को पकड़ने का प्रयास करेगी।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/west-bengal/darjeeling-news-19743315.html>